

भारतकोकिंगकोललिमिटेड

‘एक मिनीरत्नकंपनी’

(कोल इण्डिया लिमिटेडका एक अंग)

जनसम्पर्कविभाग

कोयलाभवन, कोयलानगर

धनबाद— 826005 (झारखण्ड)

दूरभाष/फैक्स: 0326-2230202

वेबसाईट: www.bccl.gov.in

ईमेल: bcclprodhanbad@gmail.com

सीआईएन : U10101JH1972GOI000918



BHARAT COKING COAL LIMITED

‘A Mini Ratna Company’

(A Subsidiary of Coal India Limited)

Public Relation Department

KoylaBhawan, Koyla Nagar

Dhanbad- 826005 (Jharkhand).

Phone/Fax: 0326-2230202

website: www.bccl.gov.in

email: bcclprodhanbad@gmail.com

CIN : U10101JH1972GOI000918

दिनांक 08.04.2017

प्रेस विज्ञप्ति

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा "VISION ZERO - SMP A TOOL" के विषय पर आज सामुदायिक केन्द्र, कोयला नगर में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें खान सुरक्षा महा निदेशालय के महा निदेशक श्री पी के सरकार, उप महा निदेशक, खान सुरक्षा महा निदेशालय श्री संजीवन राय, बीसीसीएल के निदेशक तकनीकी (योजना एवं परियोजना) श्री देवल गंगोपाध्याय, ई0सी0एल0 निदेशक तकनीकी श्री अजय कुमार सिंह, सी0सी0एल0 के सुरक्षा विभाग के अधिकारी श्री राजेश खन्ना, टाटा झरिया डिविजन के महाप्रबन्धक श्री एस रजोरिया, बीसीसीएल के महाप्रबन्धक (सुरक्षा एवं बचाव) श्री ए0के0 सिंह तथा सेल चासनाला के वरीय अधिकारी श्री अनिल कुमार राय संयुक्त रूप से उपस्थित थे एवं खान सुरक्षा महा निदेशालय के निदेशक श्री पी के सरकार मुख्य अतिथि के रूप में थे।

इस अवसर पर खान सुरक्षा महा निदेशालय, महा निदेशक श्री पी के सरकार ने उपस्थित सदस्यों को सुरक्षा से संबंधित कई दिशा निर्देश दिए तथा कहा कि वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति का सुरक्षा से संबंधित अपना कर्तव्य बनता है कि जहाँ भी काम करे सुरक्षापूर्वक करें ताकि कोई दुर्घटना न हो जिससे हम शून्य दुर्घटना के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें तथा उन्होंने कोलियरी स्तर पर बनाए गए सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान के निर्देशों को अक्षरसः पालन करने का निर्देश दिया।

उपरोक्त कार्यशाला की रूप रेखा को तैयार करने एवं सफल बनाने में उप महा निदेशक, खान सुरक्षा महा निदेशालय श्री संजीवन राय की मुख्य भूमिका थी। इस अवसर पर उन्होंने सुरक्षा से संबंधित एक नया आयाम दिया जिसमें उन्होंने "Find it, Own it & Fix it" को सुरक्षा शपथ में जोड़ा तथा कहा कि दुर्घटनाओं के विश्लेषण से यह बात सामने आई कि दुर्घटनाओं का मुख्य कारणों में सुपरविजन में कमी, सुरक्षा मापदंडों का अक्षरसः अनुपालन नहीं होना इत्यादि हैं, वर्तमान में ऐसा देखा गया है कि अधिकतर दुर्घटनाएं खुली खदानों में भूमिगत डेवेलपड गैलरी के उपर माइनिंग ऑपरेशन के दौरान हुआ है तथा उनके द्वारा रैन्डमली माईन्स का चुनाव कर सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान को स्क्रीन पर दिखावाया गया। साथ ही इस दौरान हर एक सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान पर गहन विश्लेषण किया गया निदेशक तकनीकी (योजना एवं परियोजना) श्री देवल गंगोपाध्याय ने अपने सम्बोधन में उपस्थित सभी सदस्यों से कहा कि कंपनी में पिछले वर्षों की तुलना में दुर्घटना में कमी हुई है लेकिन हमलोगों का दायित्व बनता है कि उत्पादन करने के लिए सुरक्षा का ध्यान सबसे पहले दें ताकि खदानों में दुर्घटना नहीं हो तथा उन्होंने कहा कि इसे आवश्यकता है कि इसे हर क्षेत्र तथा कोलियरियों के कॉलोनियों में सुरक्षा से संबंधित जागरूकता शिविर लगाए जायें तथा उन्हें एवं उनके परिवार के सदस्यों को सुरक्षा से संबंधित सारी जानकारी दी जाय तभी मजदूरों में सुरक्षा से संबंधित जागरूकता आईगी। तभी कंपनी में शून्य खदान दुर्घटना की लक्ष्य प्राप्त करने में कामयाबी मिलेगी तथा उन्होंने सुरक्षा से संबंधित शपथ उपस्थित सदस्यों को दिलाई।

उपरोक्त बैठक में महाप्रबन्धक (सुरक्षा एवं बचाव) श्री ए0के0 सिंह ने उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया तथा उन्होंने सभी क्षेत्रों में जागरूकता अभियान, नुकड़ नाटक तथा वाट्स सेप के जरिये चलाये जा रहे अभियान को विस्तृत रूप से जानकारी दी तथा उन्होंने कहा कि इसकी आवश्यकता है कि सभी मजदूरों को सुरक्षा से संबंधित जानकारी दी जाए साथ ही उन्होंने कहा कि मजदूरों के परिवारिक सदस्यों को भी सुरक्षा संबंधी जानकारी दी जाए और सुरक्षा सभी के घरों से शुरू हो।

उपरोक्त बैठक में खान सुरक्षा महानिदेशालय के वरीय अधिकारीगण, बीसीसीएल के तरफ से सभी क्षेत्रीय महाप्रबन्धकगण, परियोजना पदाधिकारी, क्षेत्रीय सुरक्षा पदाधिकारी, मुख्यालय के सभी विभागाध्यक्ष एवं आंतरिक सुरक्षा संगठन बीसीसीएल के अधिकारीगण तथा टाटा झरिया डिविजन के अधिकारी, सेल के अधिकारी, सी0सी0एल0 तथा इ0सी0एल के अधिकारियों ने भी उपरोक्त कार्यक्रमशाला में भाग लिया।

उपरोक्त आयोजन का संचालन वरीय प्रबन्धक (खनन)/आई0एस0ओ0 मुख्यालय के श्री किशोर यादव ने किया।



उप महाप्रबंधक(जन सम्पर्क)